



भारत डायनामिक्स लिमिटेड

निगम कार्यालय Corporate Office

गच्छी बाउली Gachibowli :: हैदराबाद Hyderabad

(रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उद्यम)

बीडीएल/104/निगम/ का. एवं प्रशा. /सीसी/06

दि. 31.10.2018

प्रेस-विज्ञप्ति

बी डी एल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह के अंतर्गत बी डी एल भानूर इकाई में दि. 30 अक्टूबर, 2018 को श्री राकेश कुमार दुबुडु, एफ ए सी टी एल वाई के संस्थापक तथा आर टी आई पर पारदर्शिता प्रचारकर्ता द्वारा एक अतिथि व्याख्यान आयोजित किया गया।

मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए सक्रिय सतर्कता से निदानात्मक सतर्कता ही बेहतर है। भ्रष्टाचार निर्मूलन के उपाय बताते हुए उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी आधारित खरीद और ऑटोमेशन से भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है।

इस अवसर पर श्री मुजीब पाषा शेख, मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्री शिवानंद खानापेट, इकाई प्रधान, भानूर इकाई, श्री एस नारायणन, महाप्रबंधक (का. एवं प्रशा.), श्री पी राधाकृष्ण, महाप्रबंधक (कांक्रूस एवं सी पी) तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आयोजित पोस्टर मेकिंग तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजेता डी ए वी स्कूल, बी डी एल भानूर तथा जिला परिषद उच्च पाठशाला, भानूर के विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किये गये। इसी प्रकार बी डी एल, भानूर इकाई में आयोजित श्लोगन लेखन और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं के विजेता कर्मचारियों को भी पुरस्कार प्रदान किये गये।



बी डी एल, भानूर इकाई में सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजन के दौरान अतिथि व्याख्यान देते हुए श्री राकेश कुमार दुबुडु, एफ ए सी टी एल वाई के संस्थापक एवं आर टी आई पर पारदर्शिता प्रचारक

---XXX---